

MILESTONE ACADEMY

VACATION HOME WORK

CLASS – VI

DATE OF SUBMISSION:-29.10.25

ENGLISH:-

1. Mini Comic Strip on Simple Tense


Draw a 3-box comic strip.

Box 1 → Use Simple Present (e.g., A boy plays football).

Box 2 → Use Simple Past (e.g., Yesterday he won a match).

Box 3 → Use Simple Future (e.g., He will play in the final next week)

Note- (Mini Comic Strip on Simple Tense Example)



2. Make a Verb Collage – Cut pictures from old magazines/newspapers or draw them, and label each with a verb (example: A boy kicking a ball → “kick”)

3. VERB RIDDLE

1. I have legs but I cannot walk, I tick all day and never stop. What am I?
2. I am something you do when you open a book. Without me, you cannot learn. What am I?
3. I am what you do when you put food in your mouth. What am I?
4. I make music without instruments, using only your voice. What am I? Sing
5. I am what you do when your eyes are closed at night. What am I?
6. I am what you do with a pencil on paper. What am I? → Write
7. I am what you do when you are happy, and your lips curve upward. What am I?
8. I am what you do with your feet when you want to move fast. What am I?
9. I am what you do when water touches your body with soap. What am I?
10. I am what you do when you travel in water using your arms and legs. What am I?

HINDI:-

प्रश्न 1. समाचार - पत्र से शब्दों का संग्रह

अखबार से कोई भी 10 नए शब्द काटकर कॉपी में चिपकाए और उनके अर्थ लिखें।

प्रश्न 2. शब्द बैंक तैयार करना

इस सप्ताह आपने जो भी नए हिंदी शब्द सुने या पढ़े हैं उनमें से शब्द लिखिए और उनके वाक्य बनाइये।

प्रश्न 3. फोटो पर कहानी।

कहानी यह पुरानी पत्रिका से एक चित्र काटकर कॉपी में चिपकाइए और उसे पर 8 से 10 पंक्तियों की कहानी लिखिए।

MATHS:-

1. Sudoku Challenge

- Solve 2 Sudoku puzzles from the newspaper/online.
- Paste them in notebook.

2. Math Riddles / Crossword

- Write 5 maths riddles (e.g., “I am a 2-digit prime number between 30 and 40. Who am I?”).
 - Create a simple crossword with maths terms (like factor, LCM, angle, line, etc.)
-

SANSKRIT:-

1. ' दीपावली ' विषय पर संस्कृत में दस वाक्य लिखिए ।
 2. गीता के किन्हीं पाँच श्लोक को अर्थ सहित लिखिए।
-

G.SC. :-

- Q1 Make Chart on traditional versus modern culinary practice in India.
- Q2.Observe the activities in your house for a day. Identify the activities that involve evaporation. How does understanding the process of evaporation help us in our daily activities?
- Q3 Why are millets considered a healthy choice of food ? Can eating just me let suffice for the nutritional requirement of your body? Discuss
- Q4 Who am I? Identify me on the basis of given properties.
- a) I have lustre_____
 - b) I can be easily compressed_____
 - c) you cannot see clearly through me_____.
 - d) I have mass and volume but you can't see me_____.
-

S.SC.

1. Write a short travel diary about a state you would like to visit in India and explain why.
 2. Interview your grandparents/parents and ask them about one festival they enjoyed most in their childhood. Write their answers in 5–6 lines.
 3. Write a slogan or a small poem on “Unity in Diversity”.
-

COMPUTER:-

1. Write step to create an email account.